



भारत का प्रधान कौंसलावास, न्यू यॉर्क  
Consulate General of India, New York

## प्रेस विज्ञप्ति

### विषय: भारत के प्रधान कौंसलावास में विश्व हिंदी दिवस एवं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन

न्यू यॉर्क स्थित भारत के प्रधान कौंसलावास में गत १२ जनवरी, २०१९ को रंगारंग विश्व हिंदी दिवस एवं प्रवासी भारतीय दिवस समारोह संयुक्त रूप से मनाया गया. कड़कती ठण्ड की परवाह न करते हुए अति उत्साह और उमंग से भरे विदेशी, प्रवासी भारतीय एवं भारतीय मूल के बच्चे बड़ी संख्या में अपने माता-पिता और शिक्षकों के साथ न्यू यॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट के सुदूर शहरों से अपने हिंदी ज्ञान का प्रदर्शन करने न्यू यॉर्क कौंसलावास पहुंचे.

'विश्व हिंदी दिवस' कार्यक्रम में तीन प्रमुख भाग रहे:

- i) विभिन्न विद्यालयों में हिंदी सीख रहे बच्चों द्वारा कविता एवं गद्य पाठ (आयु ५ -१८ वर्ष);
  - ii) मिशन में भारतीय संस्कृति के अध्यापक डॉ दयाशंकर विद्यालंकार से हिंदी सीख रहे प्रधान कौंसलावास एवं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के बच्चों द्वारा कहानी व कविता पाठ एवं
  - iii) स्थानीय कवियों द्वारा कवि सम्मेलन
2. कार्यक्रम की शुरुआत, भारतीय कौंसुलावास में चांसरी प्रमुख श्री जयदीप द्वारा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर प्रसारित सन्देश पढ़ने से हुई. तत्पश्चात, अमरीका में हिन्दी के जाने माने साहित्यकार एवं विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हिंदी सेवी, श्री अनूप भार्गव जी के द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार में तकनीक के प्रयोग पर एक ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की गई जिसे बड़ा सराहा गया.
3. विश्व हिंदी दिवस मनाने का यह कार्यक्रम हर दृष्टि से सफल रहा. श्रोताओं की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच, बच्चों ने अपनी हिंदी भाषा क्षमता का परिचय देते हुए बड़ी मनोरंजक कवितायें एवं कहानियाँ सुनाई और सबका दिल जीत लिया. उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान कौंसुल द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र एवं अनेक आकर्षक पुरस्कार दिये गए.
4. रात्रि भोजन के पश्चात, हिंदी कवि सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें अनेक जाने माने एवं नवोदित स्थानीय साहित्यकारों ने अपनी स्वरचित कविताओं का पाठ कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. साहित्यकारों में

प्रमुख थे, सुश्री सुषम बेदी, श्रीमती स्वदेश राणा, सुश्री सुनयना काचरू, डॉ. विजय मेहता, श्री अनूप भार्गव, श्री संदीप व्यास, श्री मनीष श्रीवास्तव एवं श्री अशोक सिंह. मंच सञ्चालन, जाने माने पत्रकार एवं साहित्यकार श्री अशोक व्यास जी ने किया. इस अवसर पर उन्होंने अपनी स्वरचित कविता का पाठ भी किया. कवि सम्मेलन के अंत में सभी कवियों एवं कवियत्रियों को उप प्रधान कोंसुल श्री शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किये गए एवं शाल पहनाकर सम्मानित किया गया.

5. दो सौ से अधिक आगंतुकों एवं प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम के दौरान कौंसलावास की तरफ से जलपान एवं रात्रिभोज का प्रबंध किया गया. कार्यक्रम का स्थानीय दृश्य एवं प्रिंट मीडिया द्वारा भी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया.

विश्व हिंदी दिवस का समापन श्री जयदीप, चांसरी प्रमुख द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ.

\*\*\*\*

न्यू यॉर्क, 18 जनवरी, 2019